


14882/24



Vinay K

Prateek

Prateek Savana

### विक्रय-पत्र - 1

बाजारी कीमत-26,19,000/- रुपया

स्टाम्प-1,83,400/- रुपया

- |    |   |   |                              |
|----|---|---|------------------------------|
| 1- | भूमि का प्रकार                              | - | कृषि भूमि                    |
| 2- | परगना                                       | - | जमौर                         |
| 3- | ग्राम                                       | - | नवादा इन्देपुर               |
| 4- | सम्पत्ति का विवरण                           | - | गाटा सं0-3                   |
| 5- | सड़क की स्थिति                              | - | 6 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर |
| 6- | सम्पत्ति का क्षेत्रफल                       | - | 270 वर्ग मीटर                |
| 7- | क्रेता व विक्रेता दोनो अनुसूचित जाति के है। |   |                              |
| 8- | प्रतिफल                                     | - | 26,19,000/- रू0              |

### विवरण चौहद्दी :-


- |        |   |  |
|--------|---|--|
| पूरब   | - | रास्ता 6 मीटर से कम                        |
| पश्चिम | - | आराजी प्रमोद कुमार अग्रवाल                 |
| उत्तर  | - | आराजी विक्रेता                             |
| दक्षिण | - | मकान एवं सम्पत्ति सुशील कुमार व विनय कुमार |

18 3/4

Kamal



Vinay K



Prateek Agarwal



उपनिबन्धक मंदर शाहजहांपुर क्रम 2024319026068  
आवेदन संख्या : 202400795019972  
लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2024-10-10 00:00:00  
प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम प्रशान्त अग्रवाल  
लेख का प्रकार विक्रय पत्र  
प्रतिफल की धनराशि 2619000 / 2619000.00  
1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 26190  
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60  
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क  
4. मुद्दतार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क  
5. कमीशन शुल्क  
6. विविध  
7. यात्रिक भत्ता  
1 से 6 तक का योग 26250  
शुल्क बमूल करने का दिनांक 2024-10-10 00:00:00  
दिनांक जय लेख प्रतिलिपि या तलाश  
प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2024-10-10 00:00:00  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(2)

हम कि 1. सुशील कुमार कुमरा पुत्र राम मोहन कुमरा निवासी मोहल्ला प्रताप इन्कलेव दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर खुद व बहैसियत मुख्तारेआम श्रीमती कृष्णा कुमरा पत्नी सुभाषचन्द्र कुमरा निवासी मोहल्ला दीवान जोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर। मुख्तारेआम का इन्द्राज कार्यालय सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहांपुर के यहाँ वही सं०-4, जिल्द सं०-76, पृ०सं०-205 से 218, क्रमांक-50 पर दिनांक 16.05.2018 पर दर्ज है। मुख्तारकर्ता जीवित है तथा मुख्तारेआम का खण्डन नहीं हुआ है। 2. विनय कुमार कुमरा पुत्र राम मोहन कुमरा निवासी मोहल्ला प्रताप इन्कलेव दीवानजोगराज शहर व जिला शाहजहांपुर। मो०-9415035527 पैन नं०-AANHS9966A, ABOPK4221G, AAEHV1560N

..... प्रथम पक्ष

एवं

एस०पी०के०एन० एण्ड सन्स प्रा०लि० अजीजगंज शहर व जिला शाहजहांपुर द्वारा डायरेक्टर प्रशान्त अग्रवाल पुत्र योगेश कुमार अग्रवाल निवासी श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शहर व जिला शाहजहांपुर। पैन नं०-ABDCS6704J मो०-9451711111

.....द्वितीय पक्ष

जो कि कृषि भूमि स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर परगना जमौर तहसील सदर जिला शाहजहांपुर जिसकी पैमाइश पूरब पश्चिम जानिब उत्तर व दक्षिण दोनो ओर 40 मीटर (चालीस मीटर) व उत्तर दक्षिण जानिब पूरब 7.5 मीटर (सात मीटर पांच सेमी) व जानिब पश्चिम 6 मीटर (छः मीटर) जिसका कुल क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर (दो सौ सत्तर वर्ग मीटर) जैसा कि साथ में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है जो गाटा संख्या 3 का अंश है जिसके बावत् हम प्रथम पक्ष को पूर्ण हक मालिकाना हस्तान्तरण

R. Kumar



Umesh K



Prabhat Aggarwal



(3)

आदि के हासिल हैं। यह कि प्रथम पक्ष प्रताप सिंह कुमरा के वारिस है प्रताप सिंह कुमरा द्वारा अपने जीवन काल में कुछ भूमि क्रय की गयी थी जिसमें से खसरा संख्या 3 प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी के नाम खरीदी गयी थी तथा खसरा संख्या 7 प्रताप इंडस्ट्रीज के नाम खरीदी गयी थी प्रताप इंडस्ट्रीज ने पहले एक ऑयल मिल प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कम्पनी की भूमि पर लगा ली थी बाद में परिवार में व्यापार बदलकर इस संबन्ध में धारा 143 अंतर्गत 04.09.1986 की खसरा संख्या 3/2.34 एकड़ व खसरा संख्या 7 मिनजुमला/1.34 एकड़ औद्योगिक घोषित कर दी गयी थी लेकिन प्रताप इंडस्ट्रीज की भूमि खसरा संख्या 7 हमेशा खाली रही है उसका प्रयोग कृषि कार्य हेतु रहा खसरा संख्या 3 के अंश पर जो मिल लगाई गयी थी वह भी आपसी विवाद में बंद हो गयी तथा उक्त मिल की इमारत जो प्रताप इंडस्ट्रीज की इमारत बनी थी जिसके सिर्फ मलवे की मालिक प्रताप इंडस्ट्रीज थी उक्त मलवा भी मौके से हट गया और समस्त औद्योगिक भूमि का उपयोग भी समाप्त हो गया तथा वर्तमान में कृषि भूमि है लेकिन आवासीय प्रयोजन हेतु खरीदी जा रही है।

यह कि बाद में परिवार में विवाद होने पर मुकदमा दारी शुरू हो गयी तथा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन शाहजहांपुर में मूल वाद संख्या 192/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम अरुणा देवी आदि तथा मूल वाद संख्या 198/1991 श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम राजकुमार आदि दायर हुये उक्त दोनो मुकदमों का निर्णय दिनांक 05.09.1998 को समझौते के आधार पर हो गया था जिसके उक्त निर्णय के अनुसार राजस्व अभिलेखों में खसरा संख्या 3/0.947 हे0(2.34 एकड़) स्थित ग्राम नवादा इन्देपुर पर वाद संख्या 102/1775 जगदीश चंद्र

R. Kumar

Om Singh

Prashant Agarwal



(4)

कुमरा आदि बनाम प्रताप सिंह कुमरा एण्ड कंपनी ने दिनांक 24.12.1999 को पारित निर्णय के अनुसार प्रताप सिंह कुमरा एंड कम्पनी फर्म विघटित हो जाने के कारण उक्त भूमि भागीदारों के नाम दर्ज कर दी गयी वादहू इस संबन्ध में पुनः विवाद हुआ और मूल वाद संख्या 201/2003 सुशील कुमार कुमरा आदि बनाम जगदीश चंद्र कुमरा आदि न्यायलय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिविजन शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 02.09.2005 को पारित निर्णय के द्वारा खसरा संख्या 3 की भूमि के पूर्ण मालिक जगदीश चंद्र कुमरा सुशील कुमार कुमरा एवं विनय कुमार कुमरा हो गये थे। जगदीश चंद्र कुमरा ने अपने हिस्से की पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.09.2015 को श्रीमती कृष्णा कुमरा पत्नी सुभाष चंद्र कुमरा के नाम कर दी थी जिसका इन्द्राज कार्यालय सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहांपुर के यहाँ वही सं०-3, जिल्द सं०-225, पृ०सं०-165 से 174, क्रमांक-486 पर दिनांक 16.09.2015 पर दर्ज है। इस प्रकार से हम तीनों दखील है उपरोक्त भूमि सन 1986 में औद्योगिक भूमि दर्ज हो गयी थी लेकिन औद्योगिक उपयोग उपरोक्त फर्म विघटित हो जाने के बाद समाप्त हो गया था और विगत 20 वर्ष से अधिक से उक्त भूमि पर कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं लगी हुई है और राजस्व कर्मचारियों की अनदेखी के कारण अभी तक उसे गलत तौर अकृषक भूमि होना राजस्व अभिलेखों पर दर्ज है धारा 144 यू०पी०जैड० एंड एल०आर०एक्ट के अनुसार राजस्व अधिकारियों का स्वयं दायित्व था कि मौके पर कृषि हो रही है को राजस्व अभिलेखों में सही दर्ज किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया है विगत 20 वर्षों से उक्त भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है वर्तमान खतौनी में भी सिर्फ कृषि भूमि दर्ज है। उक्त भूमि के संबन्ध में परिवार के कुछ लोगो द्वारा अनावश्यक रूप से मुकदमादारी की जा रही है जिसका मुकदमा दीवानी


(5)

न्यायालय में चल रहा है। आराजी काशत आज तक हर प्रकार के भार से पाक व साफ है, अतः प्रथम पक्ष ने अपनी कुल काशत में से रकबा 270 वर्ग मीटर भूमि को खूब सोच व समझकर बिना किसी जबर व दबाव के खुशी खुद बदले मुबलिग 26,19,000 /— रू0 (छब्बीस लाख उन्नीस हजार रूपया) जिसके आधे मु0 13,09,500 /— रू0 (तेरह लाख नौ हजार पांच सौ रूपया) होते हैं, में बदस्त द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दी तथा कुल कीमत अंत में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त कर द्वितीय पक्ष को अपने समान समस्त अधिकारों सहित मालिक, काबिज व दखील बना दिया। कब्जा व दखल वाकई दे दिया अब नहीं रहा कोई हक हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे का विक्रीत कृषि भूमि के बावत् यदि कोई हम प्रथम पक्ष का सहीम, सरीक या साझेदार बनकर दावा करे तो दावा वातिल व नाजायज होवे। निकल जावे जुज या कुल भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे से तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना कुल तमाम रूपया हर्जा व खर्चा सहित मुझ प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे की जात व जायदाद से हर प्रकार से वसूल कर लेवे। हम प्रथम पक्ष व वारिसान मेरे को कोई उज्र या इंकार न होगा।

अतः यह वैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

Kumar

Prashant

Prashant Agarwal



(6)

विवरण प्रतिफल

समस्त प्रतिफल 26,19,000/- रुपया निम्न अनुसार अदा किया जा रहा है-

<u>चेक सं०</u>	<u>धनराशि</u>	<u>दिनांक</u>	<u>जारीकर्ता बैंक</u>
511897	982125	08.10.2024	भारतीय स्टेट बैंक
511898	982125	08.10.2024	भारतीय स्टेट बैंक
511899	654750	08.10.2024	भारतीय स्टेट बैंक

उक्त आराजी काश्त विकासशील ग्राम की सूची में आती है जिस पर श्रीमान कलेक्टर शाहजहाँपुर द्वारा उत्तर प्रदेश (वैल्यूशन आफ प्रापर्टी नियमावली 1997 के अन्तर्गत बनाई गयी मूल्यांकन सूची जो दिनांक 05.01.2024 से प्रभावी है के अनुसार आवासीय भूमि की दर से मूल्यांकन सूची के पृष्ठ-33 के क्रमांक 310 के प्रारूप-2 के वी०कोड 1301 की दर 9700/- रुपया प्रति वर्ग मीटर है। मुख्तारकर्ता जीवित है तथा मुख्तारेआम का खण्डन नहीं हुआ है।

नोट-विक्रीत कृषि भूमि मुख्य सड़क 6 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर स्थित है। जिसकी निर्धारित दर 9700/- रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आराजी काश्त की अधिकतम बाजारी कीमत मु० 26,19,000/- रुपया होती है। जिस पर स्टाम्प शुल्क

Rumal



Vivek K




Prashant Agaswal





# नजरी नक्शा आराजी उफतादा


स्थित मोहल्ला/ग्राम नवादा इन्देपुर  
तहसील सदर जिला-शाहजहाँपुर



कुल क्षेत्रफल-270 वर्ग मीटर

आराजी विक्रेता

आराजी प्रमोद कुमार अग्रवाल



पश्चिम

मकान व सम्पत्ति सुशील कुमार व विनय  
कुमार

Rinat

Vinay

Beshant Agarwal

# फोटोग्राफ आराजी

स्थित मोहल्ला / ग्राम—.....

तहसील सदर जिला—शाहजहाँपुर



*Ramesh*



*Vinay Kumar*





*Poashant Agarwal*



( )

नियमानुसार अदा किया गया है।

गवाह-1 प्रतीक सक्सेना पुत्र विनीत सक्सेना निवासी मोहल्ला  
खिरनीबाग शहर व जिला शाहजहांपुर।  
मो0-7007735650



गवाह-2 राजीव पुत्र बद्रीनाथ निवासी ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी  
तहसील सदर जिला शाहजहांपुर। मो0-9956656535



मसविदा- आलोक कुमार मिश्र, (एडवोकेट) मो0-9839722386  
टाईपकर्ता- अनुज शर्मा  
दिनांक- 10.10.2024 ई0









विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14882

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 2619000 स्टाम्प शुल्क- 183400 बाजारी मूल्य - 2619000 पंजीकरण शुल्क - 26190 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 26250

श्री एस०पी०के०एन एण्ड सन्स प्रा० लि० द्वारा  
प्रशान्त अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री योगेश कुमार अग्रवाल  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर



श्री. एस०पी०के०एन एण्ड सन्स प्रा० लि० द्वारा  
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2024 एवं 02:08:27 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

प्रशान्त अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

*Prashant Agrawal*

प्रिंट करें

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता  
उप निबंधक :सदर  
शाहजहांपुर  
10/10/2024

हरीश यादव .  
निबंधक लिपिक  
10/10/2024



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 14882

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने भजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुशील कुमार कुमरा खुद व बहैसियत मु०आम श्रीमती कृष्णा कुमरा, पुत्र श्री राम मोहन कुमरा

निवासी: प्रताप इन्कलेव दीवानजोगराज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2




श्री विनय कुमार कुमरा, पुत्र श्री राम मोहन कुमरा

निवासी: प्रताप इन्कलेव दीवानजोगराज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य


क्रेता: 1



श्री एस०पी०के०एन एण्ड सन्स प्रा० लि० के द्वारा प्रशान्त अग्रवाल, पुत्र श्री योगेश कुमार अग्रवाल

निवासी: श्री दुर्गा इंडस्ट्रीज कम्पाउन्ड अजीजगंज शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रतीक सक्सेना, पुत्र श्री विनीत सक्सेना

निवासी: खिरनीबाग शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री राजीव , पुत्र श्री बद्रीनाथ

निवासी: ग्राम सेहरामऊ दक्षिणी तहसील सदर शाहजहांपुर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार गुप्ता

उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर

10/10/2024

हरीश यादव .

निबंधक लिपिक शाहजहांपुर

10/10/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

प्रिंट करें

आवेदन सं०: 202400795019972

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16810 के पृष्ठ 185 से 204 तक क्रमांक 14882 पर दिनांक 10/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



अरुण कुमार गुप्ता

उप निबंधक : सदर

शाहजहांपुर

10/10/2024

प्रिंट करें

